

इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी

फुरसतगंज एअरफील्ड

रायबरेली (भारत)

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुभाग 4(1) (बी) के अंतर्गत इगुआ से संबंधित सूचना

मैनुअल - viii

परिषद, सभा या समिति अथवा अन्य संकाय, जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों से मिलकर बना हो, इसके हिस्से के रूप में अथवा परामर्श के उद्देश्य से और परिषद सभा या समिति की मंत्रणा अथवा जन सामान्य के लिये खुले अथवा समिति एवम दूसरे संकाय जन सामान्य की पहुँच में हो

अकादमी में तीन निकाय गवर्निंग काउंसिल, हाउसिंग कमेटी एवम मेस कमेटी विद्यमान हैं जिसमें दो अथवा दो से अधिक सदस्य हैं।

सामान्य परिस्थितियों में गवर्निंग काउंसिल की वर्ष में दो बैठकें आयोजित की जाती हैं और विशेष परिस्थितियों में दो से अधिक बैठकें भी आयोजित की जा सकती हैं। गवर्निंग काउंसिल इसका सर्वोच्च निकाय है जो इगुआ के क्रियाकलापों की रूपरेखा तैयार करता है। ऐसे मामले जिस पर गवर्निंग काउंसिल द्वारा संकल्प पारित किये जाते हैं के सम्बंध में जनता के सम्बंधित वर्ग को अवगत कराया जाता है। चयन प्रक्रिया, शुल्क संरचना, इगुआ में संचालित किये जाने वाले पाठ्यक्रमों, आरक्षण नीति इत्यादि इगुआ की वेबसाइट पर अद्यतन की जाती हैं। इसी प्रकार, कर्मचारियों/अथवा स्टाफ के किसी वर्ग के सम्बंध में लिए गये निरणयो को सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किया जाता है।

हाउसिंग कमेटी एक आंत्रिक निकाय है जो गठन आवास आवंटन, रिक्त आवासों का आवंटन इत्यादि पर नियम निर्धारण, संशोधन, निरसन जैसे मामलों पर अपनी संस्तुति देती है। हाउसिंग कमेटी मीटिंग में लिए गये निर्णयों को सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किया जाति है।

मेस कमेटी का गठन छात्रों को गुणवत्ता पूर्ण मेस सुविधा और छात्रावासों के उचित रखरखाव के उद्देश से किया गया है। समस्त लाभार्थियों विशेष रूप से प्लाइंग कैडेट्स की आवश्यकताओं के अनुरूप मेस कमेटी द्वारा निर्णय लिया जाता है।